

## पत्रकारिता एवं जनसंचार (J&MC)

इस कोर्स के अंदर विद्यार्थी मीडिया के विषय में अध्ययन करेंगे जैसे रेडियो, टेलिविज़न, अखबार और डिजिटल मीडिया क्या है और वे कैसे काम करते हैं। अखबार रेपोर्टिंग, सम्पादन और लेखन, फिल्म निर्माण और संचार कौशल इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। रेडियो, टीवी, अनलाइन पत्रकारिता, फोटोग्राफी, विज्ञापन और जनसम्पर्क में रुचि रखने वालों के लिए यह डिग्री उपयोगी है।

**अध्ययन की भाषा :** हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी

### पाठ्यक्रम परिचय एवं करिअर की संभावनाएं

तीन वर्ष के इस डिग्री प्रोग्राम में विद्यार्थी बाकी विषयों की तरह ही स्नातक कर सकते हैं इसके बाद बाकी विषयों की तरह ही पत्रकारिता में एम ए कर नेट उतीर्ण कर किसी महाविद्यालय और विश्व-विद्यालय में सहायक प्राध्यापक बन सकते हैं इसके अलावा सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी की अपार संभावनाएं हैं जैसे सरकारी और निजी मीडिया में रिपोर्टर, पत्रकार, फोटो पत्रकार, संपादक, कार्यक्रम अधिकारी, इंजीनियर, निर्माता, न्यूज़ एंकर, कार्यक्रम प्रस्तोता विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में जनसम्पर्क अधिकारी तथा विभिन्न विज्ञापन एजेंसी में, मार्केटिंग एजेंसी में भी जॉब कर सकते हैं।

### प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम

- (1) संचार के सिद्धांत (संचार हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है सही तरीके से संचार कैसे करें जिससे हम एक अच्छे संचारक बन सकें इसके विभिन्न पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है)
- (2) रेडियो और टेलीविज़न का परिचय इसमें रेडियो और टेलीविज़न के इतिहास, कार्य शैली और किस प्रकार विद्यार्थी इनमें अपना भविष्य बना सकते हैं विषयों को सम्मिलित किया गया है

### द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम

द्वितीय वर्ष में कुल चार विषयों का विद्यार्थी अध्ययन करेंगे जिन में से दो थ्योरी और दो प्रैक्टिकल पर आधारित होंगे।

- (1) विज्ञापन एवं जनसंपर्क
- (2) नव मीडिया संचार
- (3) रेपोर्टिंग एडिटिंग और फीचर लेखन (प्रैक्टिकल)
- (4) नव मीडिया के लिए कौशल (प्रैक्टिकल)

### तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम

तृतीय वर्ष में भी विद्यार्थी चार विषयों का अध्ययन करेंगे जिन में से दो थ्योरी और दो प्रैक्टिकल पर आधारित होंगे। विषयवार विवरण इस प्रकार है

(1) सामुदायिक और पारंपरिक मीडिया (इसमें तहत सामुदायिक रेडियो, हिमाचल प्रदेश और भारत के विभिन्न पारंपरिक माध्यमों और वेकल्पिक माध्यमों जैसे विषयों को शामिल किया गया है )

(2) फोटोपत्रकारिता (विशेषकर फोटोग्राफी में रुचि रखने वालों के लिए यह विषय अत्यधिक उपयोगी है पत्रकारिता में फोटोग्राफर अच्छा करियर बना सकते हैं )

(3) संचार कौशल (प्रैक्टिकल) इसमें व्यक्तित्व निर्माण के कौशल, संचार कौशल औपचारिक संचार के लिए लेखन

(4) फिल्म एग्जीक्यूशन स्किल्स (प्रैक्टिकल) इसके अंतर्गत फिल्म निर्माण,शूटिंग, कैमरे का प्रयोग, फिल्म समीक्षा लेखन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है